

Melton City 2041

THE CITY WE CREATE



Melton City 2041—वह शहर जो हम बनाते हैं य, City of Melton के लिए हमारे समुदाय की दूरदर्शिता है; जिसे हमारे समुदाय ने, हमारे समुदाय के लिए विकसित किया है। इससे हमारे शहर के भविष्य को आकार देने में मदद मिलेगी, जिससे हम अगले दो दशकों में जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसे लेकर अपनी साझा आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से तय कर पाएंगे।

विज्ञान का विवरण

2041 में, हमारा समुदाय जीवन्त और खुशनुमा होगा।

हम अपने समुदाय में सक्रियता से सहभागी हैं, हम एक-दूसरे को महत्व देते हैं और साथ मिलकर अपने विविधतापूर्ण और विकसित होते शहर को प्रसिद्ध करने वाली अपनेपन की भावना पैदा करते हैं।

हम रहने की स्थिति और स्थिरता को बेहतर बनाने को लेकर प्रगतिशील हैं, हम अपने प्राकृतिक वातावरण का पोषण करते हैं, और हम कुछ इस तरह से विकास कर पाएंगे हैं, जिससे जुड़ाव, सहभागिता और भरोसे को बढ़ावा मिले।

हम एक स्वस्थ समुदाय हैं, जहां सक्रिय जीवनशैली, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुल जगहें और स्थल हैं। हमारे आस-पास अत्याधुनिक अस्पताल हैं और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक सेवाओं तक पहुँच है।

हम एक सीखने वाले शहर के रूप में और अपने अग्रणी नवाचार के लिए जाने जाते हैं जो प्रचुर मात्रा में रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।


यह विज्ञान के विवरण City of Melton के सामुदायिक पैनल द्वारा मार्च 2021 में विकसित किया गया था।

हमारे सामुदायिक विज्ञान के विषय

पाँच विषय उन प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं जो हमारे समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर अपने प्रयासों को केन्द्रित करके, हम अपने शहर की प्रगति की देखरेख करने में सक्षम होंगे जो समय के साथ और भी अधिक जीवन शक्ति से युक्त और जीवंत हो रही है।

विषय 1 | हमारा सामुदायिक रूप से जुड़ा शहर:

- स्वच्छ, खुशनुमा और सुरक्षित है
- समावेशी और पोषण करने वाला है
- विविधतापूर्ण, सक्रिय और सामाजिक रूप से जुड़ा है
- सभी प्रकार के भेदभाव और असमानता के प्रति असहिष्णु है।




विषय 2 | हमारा सम्पन्न प्राकृतिक वातावरण इस प्रकार से भी सहयोग करता है:

- वन्य जीवन और लोगों के लिए प्राकृतिक स्थान
- पेड़ों की छाया से भरपूर हरा-भरा शहर
- सतत योजना, डिजाइन, विकास और संरक्षण
- पीने और अन्य जल स्रोतों का सतत उपयोग।



विषय 3 | हमारे सु-निर्मित शहर में यह शामिल हैं:

- फुटपाथ, बाइक लेन और सक्रिय परिवहन विकल्पों को जोड़ने के लिए सुनियोजित पड़ोस
- अद्वितीय स्थानीय उपनगरों में बहुत सारे पार्क और खुले स्थान
- कुशल सार्वजनिक परिवहन और एक मुक्त प्रवाह वाला सड़क नेटवर्क
- सुलभ स्कूल, मनोरंजन और अवकाश सुविधाएँ, एक सार्वजनिक अस्पताल और स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सेवाएँ।



विषय 4 | हमारी मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रदान करती है:

- शिक्षा, नौकरी प्रशिक्षण और आजीवन सीखने के अवसर
- स्थानीय रोज़गार का मिश्रण
- निवासियों और आगंतुकों के लिए मज़ेदार और दिलचस्प स्थान
- अद्वितीय स्थानीय व्यापार और आकर्षण



विषय 5 | हमारे सक्रिय रूप से सहभागी लोग इस तरह के हैं:

- परिषद के साथ निष्पक्ष, न्यायसंगत और खुली बातचीत करने वाले
- सुलभ और पारदर्शी शासन प्रक्रियाओं के माध्यम से सहयोग करने वाले
- हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली परिषद योजनाओं के विकास में विचार-विमर्श करने और योगदान के लिए प्रोत्साहित करने वाले।

